



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

30 भाद्र 1938 (श0)  
(सं0 पटना 771) पटना, बुधवार, 21 सितम्बर 2016

---

सं० 01 / प्रा0आ0-01 / 2016 / 3374 / आ0प्र0  
आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

6 सितम्बर 2016

विषय:— बिहार राज्य के जिलों में भूकम्परोधी घरों के निर्माण तथा पुराने घरों के रेट्रो फीटिंग के लिए नागरिकों को तकनीकी परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराने संबंधी विशेष सेल के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार देश का सर्वाधिक आपदा प्रवण राज्य है, जो अपनी विशेष भौगोलिक संरचना एवं प्राकृतिक कारणों से प्रायः प्रत्येक वर्ष किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से आक्रान्त होता रहता है। इसी प्रकार भूगर्भीय स्थिति के कारण भी बिहार राज्य की स्थिति भूकम्प के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है। राज्य के 38 जिलों में से 33 जिले भूकम्प के सर्वाधिक संवेदनशील जोन -V, IV और III में स्थित हैं, जहाँ भूकम्प का खतरा सदैव बना रहता है। हाल के वर्षों में भूकम्प के कई झटके महसूस किये गये। गत वर्ष माह अप्रैल एवं मई 2015 में आये नेपाल के भूकम्प से बिहार राज्य सर्वाधिक प्रभावित रहा। राज्य में जान-माल की भारी क्षति हुई, साथ ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में अनेक भवन क्षतिग्रस्त हो गये। भवनों के क्षतिग्रस्त होने से न केवल आर्थिक हानि होती है, बल्कि लोगों का जीवन भी संकटग्रस्त रहता है।

2. भूकम्प की घटनाओं के दृष्टिगत क्षति को न्यून करने के लिए भवनों का भूकम्परोधी निर्माण तथा रख-रखाव आवश्यक है। भूकम्परोधी निर्माण के लिए लोगों में जागरूकता एवं ज्ञान भी आवश्यक है।

3. अतएव राज्य में भूकम्परोधी घरों के निर्माण तथा पुराने घरों के रेट्रो फीटिंग के लिए नागरिकों को तकनीकी परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराने हेतु भवन निर्माण विभाग के अधीन राज्य एवं प्रत्येक कार्य प्रमंडल में कार्यपालक अभियंताओं के अधीन विशेष सेल का गठन किया जाता है। इस सेल में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रशिक्षित कराया जाएगा तथा सेल गठन की जानकारी आमलोगों तक पहुँचाई जाएगी, ताकि वे सेल की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकें। भवन निर्माण विभाग आवश्यकतानुसार इन विशेष सेलों के लिए अलग से पदों का सृजन एवं पेशेवर अभियंताओं की सेवाएँ लेने पर विचार कर सकता है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
व्यास जी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 771-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>